

Weekly One Liners 6th July to 12th of July 2020

विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को देगा 400 मिलियन डॉलर का ऋण

विश्व बैंक ने 'नमामि गंगे कार्यक्रम' में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल हैं। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, जो लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है।

विश्व बैंक वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के जरिए वर्ष 2011 से ही भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा इसने नदी के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) की स्थापना करने में भी मदद की है।

महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया "महा" जॉब पोर्टल

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में "महा" रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं (employers) और स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में मदद करेगा। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

महा जॉब पोर्टल कर्मियों को 17 सेक्टरों में आवेदन करने में सक्षम करेगा जिसमें इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल और फार्मास्युटिकल शामिल हैं। इस नौकरी पोर्टल का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को पोर्टल पर पंजीकृत करके, अपना पूरा ब्यौरा अपलोड करना होगा, जिसे बाद में नियोक्ता/कंपनियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

12 Months Subscription



BANK

Useful for Bank & Insurance Exams

TEST PACK

अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का किया ऐलान

अमेरिका ने 6 जुलाई, 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization - WHO) से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के डब्ल्यूएचओ से अलग होने की वास्तविक प्रक्रिया 6 जुलाई, 2020 को अमेरिका के मंत्री माइक पोमोयो द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ शुरू हुई हो गई थी। इसे प्रभावी होने में एक साल का समय लगेगा।

अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने का क्यों किया फैसला?

- अमेरिका WHO पर लगातार कोरोना वायरस पर चीन का साथ देना का आरोप लगाता रहा है, जिसका पता पिछले साल चीनी शहर वुहान में चला था, अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाते हुए कि कहा कि स्वास्थ्य निकाय ने इस मामले में पूरी दुनिया को गुमराह किया, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर लगभग डेढ़ लाख लोग मारे गए, जिनमें 130,000 से अधिक लोग अकेले अमेरिका के हैं।
- ट्रम्प प्रशासन द्वारा की गई संबंधों की समीक्षा के बाद अमेरिका ने अप्रैल में ही डब्ल्यूएचओ को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लगभग एक महीने बाद, WHO से रिश्ते खत्म करने की घोषणा की थी।
- The US has been a party to the WHO Constitution since **June 21, 1948**.
- अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो WHO को प्रति वर्ष 450 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय राशि प्रदान करता था। वहीं चीन वैश्विक स्वास्थ्य संस्था को हर लगभग 40 मिलियन अमरीकी डालर देता है, जो कि अमेरिका का दसवां हिस्सा है।
- अमेरिका 21 जून 1948 को हुए डब्ल्यूएचओ के गठन के बाद से इसका सदस्य रहा है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इसकी सदस्यता को इस विश्व निकाय से अंतिम रूप से अलग होने के लिए अमेरिका द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया।

इंफॉर्मेशन रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को मिला 31 वां स्थान

यूरोपीय आयोग (ईयू) के तहत संचालित, अनुसंधान केंद्र इंफॉर्म द्वारा जारी "INFORM Report 2020: Shared evidence for managing crises and disasters" रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में 191 देशों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में "इंफॉर्म रिस्क इंडेक्स" के आधार पर देशों को स्थान दिया गया है, जिसमें सोमालिया 8.9 के जोखिम के साथ शीर्ष पर है। वहीं 5.4 के सुचना जोखिम के साथ भारत 31 वें स्थान पर है, जिसका अर्थ है मानवीय संकटों और आपदाओं का जोखिम से है।

Ranks of Top 10 Countries in INFORM Risk Index:

रैंक	देश	Inform Risk
1st	सोमालिया	8.9
2nd	केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य	8.6
3rd	दक्षिण सूडान और यमन	8.1
4th	अफ़ग़ानिस्तान	8.0
5th	चाड और सीरिया	7.3
6th	कांगो DR & इराक	7.0
7th	इथियोपिया, नाइजीरिया और सूडान	6.9
8th	नाइजर	6.7
9th	हैती	6.6
10th	युगांडा	6.5
31st	भारत	5.4

JLL द्वारा जारी GRETI 2020 इंडेक्स में भारत को मिला 34 वां स्थान

जोन्स लैंग लासेल (Jones Lang LaSalle-JLL) द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स (Global Real Estate Transparency Index -GRETI) जारी किया गया है। GRETI अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का एक अनूठा बेंचमार्क है और विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक जरूरी मार्गदर्शिका है। इसमें 99 देशों और क्षेत्रों सहित 163 शहरों को कवर किया गया है।

ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स (GRETI) 210 संकेतकों पर आधारित है जिसमें स्थिरता और लचीलापन, स्वास्थ्य और कल्याण, प्रॉपर्टी और विकल्प पर अतिरिक्त डेटा शामिल हैं। सभी को कुछ प्रतिशत के साथ छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है:

- Performance Measurement 25%
- Market Fundamentals 16.5%
- Governance of Listed Vehicles 10%
- Regulatory and Legal 23.5%
- Transaction Process 15%
- Sustainability 10%

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions

IBPS RRB 2020

PO + CLERK

PRIME

245 + Total Tests | eBooks

यहाँ सूचकांक में शीर्ष स्थान पाने वाले देशों की सूची दी गई है:-

Rank	देश	Score
1	यूनाइटेड किंगडम	1.31
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	1.35
3	ऑस्ट्रेलिया	1.39
4	फ्रांस	1.44
5	कनाडा	1.51
6	न्यूजीलैंड	1.67
7	नीदरलैंड	1.67
8	आयरलैंड	1.83
9	स्वीडन	1.89
10	जर्मनी	1.93
34	भारत	2.69

राष्ट्रीय समाचार

- भारत के उपराष्ट्रपति, एम. वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन "ईलाइमेंट्स" ("Elyments") लॉन्च किया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत, 1,000 से अधिक आईटी पेशेवर एक साथ होमग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए।
- भारत की पहली **No-Permission No-Takeoff (NPNT) A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS)** कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को **क्रिडिच इनोवेशन लैब्स और एस्टेरिया एयरोस्पेस** द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **10 जुलाई** को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए **मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट** का अनावरण किया। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है।
- **झारखंड** स्थित **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)** के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक **स्वर्गीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119 वीं जयंती** के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है।
- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने **L&T इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड** को 50 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। यह राशि देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते के तहत दी गई पहली किश्त है।
- U.S. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी करने का ऐलान किया है। यह साझेदारी USAID-समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी (SAGE) और MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के बीच हुई है।

- बोइंग इंडिया ने भारतीय वायु सेना (IAF) को हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर आखरी बचे पांच AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही, बोइंग ने भारतीय (IAF) को सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F(I) चिनूक के भारी-भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है।

राज्य समाचार

- भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने 'बलराम योजना' शुरू की है। नई योजना के तहत, भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों (JLGs) के माध्यम से ऋण मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान "मिशन वृक्षारोपण - 2020" शुरू किया गया। इस अभियान के तहत, उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।
- मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने "इंतज़ार आप का" नामक एक नया अभियान शुरू किया है। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर शुरू किया गया है।
- कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना "Nekara Samman Yojane" शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार, रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे।
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ राज्य के 100 फीसदी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन हैं। राज्य द्वारा "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है, जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था।
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने "Self Scan" नामक एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। यह नई एप्लिकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नए फ्रेंच पीएम के रूप में जीन कास्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा की गई थी। उन्होंने पूर्व फ्रांसीसी प्रधान मंत्री एडोर्ड फिलिप की जगह ली जिन्होंने एक सरकारी फेरबदल से पहले पद से इस्तीफा दे दिया

- इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने सेंटर इजरायल में पामाचिम एयरबेस (Palmachim airbase) के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित शवित रॉकेट (Shavit rocket) के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सेटेलाइट "Ofek 16" का सफल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए Ofek-11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल पहला प्रक्षेपण है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र (SEAR) के दो देश मालदीव और श्रीलंका की चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की गई है। इसके साथ ही, अब मालदीव और श्रीलंका, WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है।

समझौता

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पहले चरण में अपने संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है।
- सरकार के स्वामित्व वाली खनन की बड़ी कंपनियों एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLC India Ltd) और कोल इंडिया लिमिटेड ने 5,000 मेगावाट की बिजली के लिए सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। दोनों कंपनियां संयुक्त उद्यम कंपनी (joint venture company) में समान 50:50 इक्विटी लगाएंगी।
- भारतीय रेलवे द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस परियोजना में रेलवे के ओवरहेड ट्रेक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट (DC) को सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट (AC) में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है।
- मोबिलिटी प्लेटफॉर्म Ola ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe के साथ साझेदारी की है। यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगी।
- भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल Bakamla RI के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 'समुद्री सुरक्षा और बचाव' (Maritime Safety and Security) पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- माइक्रोसॉफ्ट ने COVID-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation) के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट, NSDC के eSkill India पोर्टल से मिलकर शिक्षण संसाधनों तक मुफ्त पहुँच प्रदान करने के साथ-साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा।

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes - CBDT) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India SEBI) ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों संगठनों द्वारा आपस में स्वचालित और नियमित रूप से सूचना और डेटा का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITH) ने भारत के पहले 'NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र' (NVAITC) की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी, NVIDIA के साथ समझौता किया है। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस कर्मशैली अपनाने पर रिसर्च को गति देने के लिए स्थापित किया गया है।
- IIT एलुमनी काउंसिल ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (CSIR-IGIB) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य संयुक्त रूप से COVID-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करना है। इसके अलावा आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशाला 'MegaLab Mumbai' स्थापित करने पर भी काम कर रही है।
- फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और खनन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

पुस्तकें एवं लेखक

- RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने 'ओवरड्राफ्ट: सेविंग द इंडियन सेवर' नामक एक किताब लिखी है, जो इस महीने के अंत में रिलीज़ होगी। पुस्तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसे हार्पर कॉलिनस इंडिया ने प्रकाशित किया है।
- मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर "Getting Competitive: A Practitioner's Guide for India" पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिनस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई।
- दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई 'His Holiness the Fourteenth Dalai Lama: An Illustrated Biography' शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले और 40 से अधिक वर्षों सलाहकार रहे लेखक तेनजिन गेये टेथॉन्ग (Tenzin Geyche Tethong) द्वारा लिखी गई हैं।

बैंकिंग /अर्थव्यवस्था /व्यापार समाचार

- HDFC बैंक 1,000 शहरों में "ज़िपड्राइव" ("ZipDrive") नामक एक पहल के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार ऋण (instant car loans) प्रदान करता है। यह समाधान ग्राहक को पूर्व-स्वीकृत ऋण की पेशकश (pre-approved loan offer) के साथ नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक की फोन बैंकिंग टीम से सहायता के माध्यम से ऑटो लोन लेने की सुविधा देता है।

- यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए "Loan in Seconds" डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज़ के इस त्वरित ऋण डिसबर्सल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
- करूर वैश्य बैंक (KVB) ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है।
- फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा 'भाविष्य' बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10-18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10-18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। 'भाविष्य', सदस्यता-आधारित बचत खाता, मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है।
- निजी ऋणदाता, SBM बैंक (इंडिया) लिमिटेड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की है। एसबीएम बैंक इंडिया के ग्राहक अब 'Mastercard Send' का इस्तेमाल करके रियल-टाइम घरेलू बिजनेस-टू-कंज्यूमर ट्रांसफर जल्दी और आसानी से कर सकेंगे।
- करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजाज आलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु, जिसने बॉन्ड (जिसे राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है, इसके बाद महाराष्ट्र ₹25,500 करोड़ (14%), आंध्र प्रदेश ₹17,000 करोड़ (9%) और राजस्थान ₹17,000 करोड़ (9%) है।

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions



IBPS RRB 2020 Officer Scale-I COMBO

115+ TOTAL TESTS

नियुक्तियाँ

- 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को तीन साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
- सिजो कुरुविला जॉर्ज की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 (Science, Technology and Innovation Policy 2020) समिति में की गई है।
- यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल (UKIBC) ने जयंत कृष्णा को ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त किया है। जयंत वर्तमान ग्रुप के CEO रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे।
- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) के चेयरपर्सन जस्टिस बंसी लाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ाया दिया गया है। उनका कार्यकाल अगले तीन महीने अथवा अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय का कार्यकाल आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनजर दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
- मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे।

रक्षा समाचार

- भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास एवं प्रयोगशाला (Defence Research and Development Organisation-Defence Research and Development Laboratory) के साथ आकाश मिसाइल वीपन सिस्टम (भारतीय सेना वेरिण्ट) के लिए लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (TOT) एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions



**IBPS RRB 2020
Office Assistant
COMBO**

115+ TOTAL TESTS

योजनाएँ और समितियाँ

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा "Indian Pandemic Risk Pool" (भारतीय महामारी जोखिम पूल) बनाने के बारे में शोध करने और सिफारिशें देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस पैनल को "महामारी जोखिम पूल" की मदद से COVID-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने की संभावना की तलाशने का काम सौंपा गया है।

पुरस्कार

- नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा, फ्रीया ठकराल को उनके "रिसाइक्लर ऐप" ("Recycler App") के लिए 2020 डायना पुरस्कार मिला है। यह रिसाइक्लर ऐप एक वेब-बेस्ड मोबाइल एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee-IOC) ने घोषणा की है कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC) लीडरशिप अवार्ड दिया गया है।
- लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन (INDBATT) ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीनहाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्डे का निर्माण करना है।

बैठक एवं सम्मलेन

- क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह-अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में "Be The Revival: India and a Better New World" की थीम पर तीन दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्म निर्भार भारत अभियान पर "never-seen-before" कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।
- भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15 वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में भारत-यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलु हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच COVID-19 महामारी और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा "Unisaviour" नामक एक नया कीटाणुशोधन (disinfection) बॉक्स विकसित किया गया है। "Unisaviour" कीटाणुशोधन बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा COVID-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टरलाइज़ करने के लिए किया जा सकता है।
- Mylab डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने व्यापक टेस्टिंग के लिए 'Compact XL' नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें COVID-19 के लिए किया जाने वाला RT-PCR टेस्ट भी शामिल हैं। यह COVID-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA / DNA- आधारित टेस्टिंग करने के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मैन्युअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की पहली मशीन है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने ब्राजील के Amazonia-1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा है। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा।

खेल समाचार

- क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में, क्रिस्टन डी कॉक को मेंस क्रिकेटर ऑफ द इयर के रूप में नामित किया गया, जबकि लौरा वोल्वार्ट को वीमेन्स क्रिकेटर ऑफ द इयर के रूप में नामित किया गया है। COVID-19 महामारी के कारण 2020 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कार वर्चुअली आयोजित किए गए।
- मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास (फिनलैंड) ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग Austrian Grand Prix 2020 जीत ली है। यह 2020 फॉर्मूला वन सीज़न की पहली रेस थी। फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे जबकि मैकलारेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे।
- जी आकाश भारत के 66 वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (International Chess Federation-FIDE) की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया। उनके साथ-साथ, गोवा के अमेया ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है।
- मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली (Raneem El Welily) ने संन्यास लेने की घोषणा है। वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वाश खिलाड़ी थीं।

महत्वपूर्ण दिन

- संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद (IBC) द्वारा धर्म चक्र दिवस मनाया गया। यह दिवस बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने पहले पांच तपस्वी शिष्यों को हिरण उद्यान में दिया था। वर्तमान समय यह जगह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ, यूपी के समीप स्थित सारनाथ में स्थित है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में बौद्धों के साथ-साथ हिन्दू भी मानते हैं। यह दिन शिष्यों का गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के महत्त्व को दर्शाता है।

- हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करने के लिए चिह्नित किया गया है।
- प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर World Population Day यानि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार, आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय: Putting the brakes on COVID-19: Safeguarding the health and rights of women and girls.

निधन

- ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार एन्नियो मोर्रिकोने (Ennio Morricone) का निधन। उनका जन्म 1928 में रोम में हुआ था। उन्होंने 500 से अधिक फिल्मों बनाई थी।
- ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अभिनेता एर्ल कैमरन (Earl Cameron) का निधन। अभिनेता पहली बार स्क्रीन पर 1951 में पुल ऑफ लंदन फिल्म में नजर आए थे। उन्हें 2009 के नए साल के सम्मानों में Commander of the Order of the British Empire (CBE) के रूप में नियुक्त किया गया था।
- दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता-कॉमेडियन जगदीप का निधन। उनका मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, लेकिन वे मंच पर रखे अपने नाम जगदीप से लोकप्रिय थे। उन्हें शोले, पुराण मंदिर और अंदाज़ अपना अपना जैसी फिल्मों में निभाई अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था।
- कन्नड़ टीवी अभिनेता सुशील गौड़ा का निधन। उन्होंने 2015 में कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिक से अपना करियर शुरू करने के साथ-साथ कन्नड़ की एक या दो फिल्मों में भी अभिनय किया था।
- गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुरेश अमोनकर का Covid-19 के कारण निधन। वह दो बार 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा से विधायक चुने गए थे, और 2000 में मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंत्री के रूप में कार्य किया।
- कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन। वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिणी रॉक आइकन थे, जिन्होंने "Long-Haired Country Boy," "In America," जैसे गीतों से दशकों तक प्रशंसकों का मनोरंजन किया, और साथ ही, इसमें उनकी सबसे प्रसिद्ध फिडल ट्यून "The Devil Went Down To Georgia", जिसके लिए उन्हें 1979 एकमात्र ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
- आइवरी कोस्ट के प्रधान मंत्री एमादू गोन कूलिबाली (Amadou Gon Coulibaly) का निधन। वह हाल ही में फ्रांस से इलाज कराके वापस लौटे थे।

विविध समाचार

- भारतीय सेना के अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका (VRAAM) 2020 के पहले एडिशन में लीडरबोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा-साइकिल रेस में पोटैशियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
- दिल्ली सरकार 'पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ' अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी। यह अभियान 10-26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा।
- दिल्ली सरकार ने एक ई-लर्निंग पोर्टल "ई-रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली (LEAD)" लॉन्च किया है। लॉन्च किया गया यह ई-लर्निंग पोर्टल दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किया गया है। ई-पोर्टल "LEAD" में कक्षा I से XII के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षण-अधिगम सामग्री (teaching-learning material) को डिजिटल मंच "DIKSHA" पर अपने ई-लर्निंग पोर्टल "LEAD" के माध्यम से भी साझा करेगी।
- ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) ने "संस्कृत साप्ताहिकी" नामक एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है। यह संस्कृत में प्रसारित होने वाला पहला 'न्यूज मैगज़ीन' कार्यक्रम है जो सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रमों सहित संस्कृत की दुनिया से संबंधित समाचारों को प्रसारित करता है।
- रेसलर से एक्टर बने 'द रॉक' के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलेब्रिटी काइली जेनर को पछाड़ कर ये खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज्यादा राशि लेने वाला अभिनेता भी कहा गया था।
- हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिमी पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है।
- इंटरनेट दिग्गज कंपनी "Google" ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म Google+ को "Google Currents" नाम से रिलॉन्च किया है। Google Currents एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ-साथ ऑर्गनाइजेशन की बाकी ऐक्टिविटीज की जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम बनाता है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) - आधारित "आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई मैपिंग (ASEEM)" डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग-आपूर्ति के अन्तर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार करना है।
- हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): हरदीप सिंह पुरी।
- विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास।
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल।
- एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ: दीनानाथ दुवाशी।
- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष: जिन लिकुन।
- ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक; ओडिशा के राज्यपाल: गणेशी लाल।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्य नाथ; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल।
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे; राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बी.एस. येदुरप्पा; राज्यपाल: वजुभाई वाला।
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर; राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय।
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी; राज्यपाल: जगदीप धनखड़।
- इसराइल की राजधानी: यरूशलेम।
- इजरायल की मुद्रा: इजरायल शेकेल।
- इजरायल के राष्ट्रपति: रियूवेन रिबलिन।
- इजरायल के प्रधान मंत्री: बेंजामिन नेतन्याहू।
- डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक: टेड्रोस एडहानॉम।
- श्रीलंका के राष्ट्रपति: गोतबाया राजपक्षे।
- श्रीलंका के प्रधानमंत्री: महिंदा राजपक्षे।
- श्रीलंका की राजधानी: श्री जयवर्धनेपुरा कोटे।
- श्रीलंका की मुद्रा: श्रीलंका का रुपया।
- मालदीव के राष्ट्रपति: इब्राहिम मोहम्मद सोलीह।
- मालदीव की राजधानी: माले; मालदीव की मुद्रा: मालदीव रूफिया।
- CBSE अध्यक्ष: मनोज आहूजा।
- CBSE का मुख्यालय: नई दिल्ली।
- CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी।
- कोल इंडिया का मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
- प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।
- भेल के अध्यक्ष और एमडी: नलिन शिंगल।
- भेल की स्थापना: 1964; मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत।
- केंद्रीय रेल मंत्री: पीयूष गोयल।
- फोनपे के सीईओ: समीर निगम
- फोनपे का मुख्यालय स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक।
- ओला के सीईओ: भावेश अग्रवाल।
- ओला का मुख्यालय स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक।
- भारतीय तट रक्षक महानिदेशक: कृष्णस्वामी नटराजन।

- भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय: नई दिल्ली।
- इंडोनेशिया की राजधानी: जकार्ता।
- इंडोनेशिया की मुद्रा: इंडोनेशियाई रुपिया।
- इंडोनेशिया के राष्ट्रपति: जोको विडोडो।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ और एमडी: मनीष कुमार।
- सीबीडीटी के अध्यक्ष: प्रमोद चंद्र मोदी।
- सीबीडीटी का मुख्यालय: नई दिल्ली।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष: अजय त्यागी; मुख्यालय: मुंबई।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष: सुखवीर सिंह संधू।
- NVIDIA मुख्यालय: कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- NVIDIA के सह-संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ: जेन्सेन हुआंग।
- IIT-Hyderabad के निदेशक: B.S.मूर्ती।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) का मुख्यालय: गांधीनगर, गुजरात।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मुख्यालय: नई दिल्ली।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष: डॉ. जी। सतीश रेड्डी।
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भारत डायनामिक्स लिमिटेड: सिद्धार्थ मिश्रा।
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड का प्रधान कार्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष: थॉमस बाख।
- एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
- एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक: आदित्य पुरी।
- यस बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
- यस बैंक के एमडी और सीईओ: प्रशांत कुमार।
- यस बैंक टैगलाइन: हमारे विशेषज्ञ का अनुभव।
- करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय: करूर, तमिलनाडु।
- करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन: स्मार्ट वे टू बैंक।
- करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष: एन.एस. श्रीनाथ।
- एसबीएम बैंक के सीईओ: परावतननी वेंकटेश्वर राव।
- एसबीएम बैंक मुख्यालय: पोर्ट लुइस, मॉरीशस।
- मास्टरकार्ड के सीईओ: अजयपाल सिंह बंगा।
- मास्टरकार्ड मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य।
- बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र।
- बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ: तरुण चुघ।
- तमिलनाडु के राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोहित।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: के। पलानीस्वामी
- दिल्ली के राज्यपाल: अनिल बैजल।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल।
- दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय।
- ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक: इरा जोशी।
- मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ: केनिची आयुकावा।
- मारुति सुजुकी मुख्यालय: नई दिल्ली।
- Google के CEO: सुंदर पिचाई; मुख्यालय: कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- नई और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्य मंत्री (I / C): राज कुमार सिंह।
- UNIFIL मिशन नेतृत्व: मेजर जनरल स्टीफनो डेल कर्नल।
- केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री: महेंद्र नाथ पांडे।
- हॉकी इंडिया की स्थापना: 20 मई 2009।
- हॉकी इंडिया मुख्यालय: नई दिल्ली।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कार्यकारी निदेशक: नतालिया कनेमा।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना: 1969।
- एचपी के मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर; एचपी के गवर्नर: बंडारू दत्तात्रय।
- इसरो के निदेशक: के। सिवन, मुख्यालय: बेंगलुरु; स्थापित: 1969।
- ब्राजील की राजधानी: ब्रासीलिया।
- ब्राजील के राष्ट्रपति: जायर बोल्सनारो।
- ब्राजील की मुद्रा: ब्राजीलियन रियल।
- बोइंग का मुख्यालय: शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- बोइंग स्थापित: 15 जुलाई 1916।
- बोइंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: डेविड एल. फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): कल्याण कृष्णमूर्ती।
- मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ): श्रीराम वेंकटरमन।
- प्रधान कार्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बी.एस. येदियुरप्पा
- कर्नाटक के राज्यपाल: वजुभाई रुदाभाई वाला।
- कर्नाटक की राजधानी: बेंगलुरु।

